



जागरण

नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़

Publish Date: Thu, 01 Aug 2019 06:21 AM (IST)

अमेठी : आबाकारी व पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार को एक नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। टीम ने छापेमारी के दौरान काफी मात्रा में एल्कोहल, नकली होलोग्राम, रैपर व खाली शीशियां बरामद की हैं। मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।

मंगलवार सुबह बिरहिनपुर गाव के पास आबकारी प्रभारी निरीक्षक आदित्य कुमार और कोतवाली प्रभारी तरुण पटेल ने ककवा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक वाहन को पकड़ा। वाहन पर तलाशी के दौरान 36 पेट्टी अवैध शराब मिली। पुलिस और आबकारी टीम ने चालक चंदईपुर मजरे गौरीगंज निवासी जय प्रकाश से कड़ाई से पूछताछ की तो जानकारी मिली कि ज्ञानचंदपुर में उसके ससुर धर्मपाल नकली शराब बनाते हैं। इसके बाद दोनों टीमों ने गाव पहुंच कर उसके घर पर दबिश दी। वहा पर चार हजार नकली होलोग्राम, चार हजार खाली शीशियां, दो एल्कोहल से भरे ड्रम, दस खाली ड्रम बरामद हुए हैं। बताते चलें कि जयप्रकाश शराब की मार्केट में बिक्री करता था। उसका ससुर धर्मपाल शराब बनाने का कार्य करता था। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि ज्ञानचंदपुर गाव में शराब बनाने का कार्य हो रहा था। नकली होलोग्राम शराब बनाने का उपकरण और पदार्थ बरामद हुआ है। बताया कि सुबह एक वाहन पर 36 पेट्टी शराब बरामद हुई है, जाच में शराब नकली मिली। चालक से पूछताछ में जानकारी मिली कि वह गौरीगंज के गौरीपुर आनापुर निवासी अनीश को बिक्री करने जा रहा था। बताया कि छापेमारी में धर्मपाल नहीं मिला। जयप्रकाश, धर्मपाल और अनीश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। सुलतानपुर जिले से यह शराब बनाने का एल्कोहल और मिलावटी पदार्थ लाता था, उसकी पहचान की जा रही है। कोतवाली प्रभारी वाहन व माल को सीज किया गया है। फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है, जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पकड़े गए आरोपित से पूछताछ जारी है। उसी की निशानदेही पर ज्ञानचंदपुर में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री मिली है।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/amethi-duplicate-alcohol-19447715.html>